



प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, जुलाई 12, 1973/आषाढ़ 21, 1895
No. 165] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 1973/ASADMA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संग्रह संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July 1973

No. F.5(7)-W&M/73.—Subscriptions for the issues of 4½ per cent Loan 1981, 5½ per cent Loan 1987 and 5½ per cent Loan 2003 (Second Issue) will be received from the 21st of July 1973. Subscriptions will be received in the form of cash or of securities of Government of India 4½ per cent Loan 1973 and the issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions in cash and conversion amount approximately to Rs. 325 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 23rd July, 1973. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 325 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 357.50 crores (Nominal), partial allotment will be made to the subscribers in cash. If partial allotment is made in respect of subscriptions received in cash, a proportionate refund will be made as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 4½ per cent Loan 1981 issued at Rs. 99.75 per cent and redeemable at par on the 21st July, 1981.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 21st July 1981.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 99.75 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 4½ per cent per annum from 21st July, 1973. Interest will be paid half-yearly on the 21st January and 21st July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

4. 5½ per cent Loan 1987 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 21st July 1987.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 21st of July 1987.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 5½ per cent per annum from 21st July 1973. Interest will be paid half-yearly on the 21st January and 21st July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 5½ per cent Loan 2003 (Second Issue) issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 12th May 2003.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 12th of May 2003.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 5½ per cent per annum from 21st July 1973. Interest for the period 21st July 1973 to 11th November 1973, inclusive, will be paid on 12th November 1973 and thereafter payment of interest will be made half-yearly on 12th of May and 12th of November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

Conversion Terms

6. Securities of the 4½ per cent Loan 1973 will be accepted for conversion into the new Loans at par. Interest at the rate of 4½ per cent per annum on the securities of 4½ per cent Loan 1973 tendered for conversion will be paid upto and inclusive of 21st July 1973 at the time of issue of new securities.

In the case of securities tendered for conversion into 4½ per cent Loan 1981, the tenderer will receive in cash at the time of issue of new securities, the amount by which the value of the securities tendered exceeds the nearest lower multiple of the issue price, where the cash value of the securities tendered for conversion into 4½ per cent Loan 1981 is not an exact multiple of issue price per cent of the new Loan applied for.

Supplementary Provisions

7. **Place of payment of interest.**—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-treasury elsewhere in India, except the State of Jammu and Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

8. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loans who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax

Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

9. Interest on all the Loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

10. The value of investments in the Loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

11. The securities will be issued in the form of—

- (i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or
- (ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

12. **Applications for the Loans.**—Applications for the Loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

13. Applications will be received at—

- (a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna;
- (b) Branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at Hyderabad; and
- (c) Branches of the State Bank of India at other places in India.

14. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

15. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of Loan which is acceptable for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the Bank concerned.

The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

- (i) in the case of Stock Certificates by signing the form of transfer deed on the reverse of the certificate before a witness;
- (ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below:—

“Pay to the President of India”.

16. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the Loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the Paying Offices within six months from the date of floatation of the loans.

FORM OF APPLICATION

I/We.....

[Full name(s) in Block letters]

.....herewith
 tender *Cash Rs.....*Cheque for Rs.....
 *Securities of Government of India 4½ per cent Loan 1973 of the nominal value of
 Rs.....and request that securities of 4½ per cent Loan
 1981*/5½ per cent Loan 1987*/5½ per cent Loan 2003 (Second Issue)* of the
 nominal value of Rs..... may be issued to me/us in the form
 of Promissory Note(s)† interest to be payable at

Stock Certificate

Signature

Name in full
(Block letters)

Address

Dated the of July 1973.

NOTES.—

- (1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words "Pay to the President of India" over the signature of the applicant. If they are in the form of Promissory Notes, and the transfer deed on the back should be signed by him before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.
- (2) Separate application should be made for each Loan, each form of subscription and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the new Loan required.
- (3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.
- (4) If the application is made in the name of a registered body, the under-noted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—
 - (i) Certificate of Registration/Incorporation.
 - (ii) Memorandum and Articles of Association or a certified copy of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.
 - (iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

*Delete what is not required.

†Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination required.

By order of the President,
 B. MAITHREYAN, Joint Secy.

वित्त मंत्रालय
 (आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1973

संख्या एक० 5(7)—इल्यू० एण्ड एन०/73.—4-3/4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1981, 5-1/4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1987 और 5-3/4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 2003 (दूसरा निर्गम) के लिए 21 जुलाई, 1973 से अधिदान लिये जाएंगे। अधिदान

नकदी या भारत सरकार के 4-1/4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1973 की प्रतिभूतियों के रूप में लिये जाएंगे और ज्यों ही यह जान पड़ेगा कि अभिदानों की कुल रकम लगभग 325 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) हो चुकी है, त्यों ही निर्गम, बिना किसी सूचना के, बन्द कर दिये जाएंगे और हर हालत में ये निर्गम 23 जुलाई, 1973 को काम बन्द होने के समय अवश्य बन्द हो जाएंगे। सरकार को 325 करोड़ रुपये की रकम से ऊपर 10 प्रतिशत तक अभिदान की रकम रख लेने का अधिकार होगा।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों के अभिदानों की कुल रकम 357.50 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से बढ़ जाए, तो नकद अभिदान देने वालों के नाम आंशिक आवंटन कर दिया जायगा और यदि नकद अभिदानों के सम्बन्ध में आंशिक आवंटन किया जायगा तो आवंटन के बाद शीघ्रातिशीघ्र आनपातिक आधार पर रकमें वापस कर दी जाएंगी। इस प्रकार वापस की गयी रकमों पर कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

3. 99.75 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 21 जुलाई, 1981 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 4-3/4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1981

- (i) वापसी की तारीख—यह ऋण 21 जुलाई, 1981 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।
- (ii) निर्गम मूल्य—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिये 99.75 रुपये होगा।
- (iii) ब्याज—इस ऋण पर 21 जुलाई, 1973 से 4-3/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की रकम हर साल 21 जनवरी और 21 जुलाई को छमाही किस्तों में अदा की जाएगी। नीचे दिये गये पैरा 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

4. 100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 21 जुलाई, 1987 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 5-1/4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1987

- (i) वापसी की तारीख—यह ऋण 21 जुलाई, 1987 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।
- (ii) निर्गम मूल्य—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिए 100.00 रुपये होगा।
- (iii) ब्याज—इस ऋण पर 21 जुलाई, 1973 से 5-1/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की रकम हर साल, 21 जनवरी और 21 जुलाई को छमाही किस्तों में अदा की जाएगी। नीचे दिये गये पैरा 8 और 9 के उपबन्धों के रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

5. 100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 12 मई, 2003 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 5-3/4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2003 (दूसरा निर्गम)

- (i) वापसी की तारीख—यह ऋण 12 मई, 2003 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।
- (ii) निर्गम मूल्य—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 100 रुपये (अंकित मूल्य) के लिये 100 रुपये होगा।

(jii) **व्याज**—इस ऋण पर 21 जुलाई, 1973 से 5-3/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज दिया जाएगा। 21 जुलाई, 1973 से 11 नवम्बर, 1973 तक की अवधि जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, का व्याज 12 नवम्बर, 1973 को अदा किया जायगा और उसमें बाद की रकम हर साल 12 मई और 12 नवम्बर को छमाही किस्तों में अदा की जाएगी। नीचे दिये गये पैरा 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, व्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लागेगा।

रूपांतरण की शर्तें

6. 4-1/4 प्रतिशत व्याज वाले ऋण, 1973 की प्रतिभूतियां नए ऋणों में रूपांतरित किए जाने के लिए सम-मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी। 4-1/4 प्रतिशत व्याज वाले ऋण, 1973 को जो प्रतिभूतियां रूपांतरण के लिए प्रस्तुत की जाएंगी उन पर, नई प्रतिभूतियां जारी करते समय, 21 जुलाई, 1973 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल होगी, 4-1/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज दिया जायगा।

जो प्रतिभूतियां 4-3/4 प्रतिशत व्याज वाले ऋण, 1981 में रूपांतरित किए जाने के लिए प्रस्तुत की जाएंगी उनके मामले में, जब उक्त ऋण में रूपांतरण के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों का नकद मूल्य नए आवेदित ऋण के प्रतिशत निर्गम मूल्य का पूरा-पूरा गणक न हो, तब प्रस्तुतकर्ता को नई प्रतिभूतियां जारी करते समय प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों के मूल्य और निर्गम मूल्य के निकटतम न्यून गूणक के बराबर की रकम नकद मिल जायगी।

अनुपूरक उपबन्ध

7. **व्याज की अदायगी का स्थान**—इस ऋण का व्याज भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत में अन्य किसी राजकोष या उपराजकोष में तथा जम्मू और श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालयों में चुकाया जायेगा।

8. व्याज की अदायगी के समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) काटी गयी कर की रकम की वापसी, ऋण देने वाले से व्यक्ति ले सकेंगे जिन पर कर न लगता हो या जिन पर उस दर से कम दर पर कर लगता हो, जिसके अनुसार कर काटा गया है।

ऋण देने वाला वह व्यक्ति जिस पर कर न लगता हो अथवा जिस पर निर्धारित दर से कम दर के अनुसार कर लगता हो, अपने जिले के आयकर अधिकारी को आवेदनपत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा जिसके अनुसार उसे व्याज की रकम, कर की रकम काटे बिना, या उस कम दर के अनुसार कर की रकम काटने के बाद मिल सकेगी जो उस पर लागू होती है।

9. अन्य पिछली सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले व्याज सहित इस समय जारी किए गए सभी ऋणों पर मिलने वाले व्याज पर तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से होने वाली आय पर आयकर नहीं लगेगा किन्तु इस तरह की कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 3000 रुपये होगी और इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (ठ) के उपबन्ध भी लागू होंगे।

10. सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए पिछले निवेशों के मूल्य सहित इस समय जारी किए गए ऋणों में किये जाने वाले निवेशों का मूल्य और धन कर अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अन्य निवेश भी 1,50,000 रुपये तक धन कर से मुक्त रहेंगे।

11. ये प्रतिभूतियां निम्नलिखित रूपों में जारी की जाएंगी:—

- (i) स्टाक, जिसके लिए आवेदन करने वालों को स्टाक-प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, अथवा
- (ii) वचन-पत्र प्रामिसरी नोट)

यदि आवेदक अपनी पसन्द जाहिर न करेंगे तो प्रतिभूतियां वचन-पत्रों के रूप में जारी की जाएगी।

12. ऋण के लिए आवेदन-पत्र—ऋण के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र अनिवार्यतः सौ रुपये या उसके गुणकों के लिए दिये जाने चाहिए।

13. ऋण के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित स्थान पर लिखे जाएंगे:—

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई (फोर्ट और मायखला), कलकत्ता हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना स्थित कार्यालय;
- (ख) हैदराबाद शाखा को छोड़ कर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहायक बैंकों की वे शाखाएं जो सरकारी राजकोष का कार्य करती हों, और
- (ग) भारत में अन्य स्थानों पर स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं।

14. आवेदन इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र (फार्म) के रूप में हो या किसी ऐसे अन्य रूप में हो जिसमें मांगी गयी प्रतिभूतियों की रकम और उनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया हो, जहां से वह ब्याज की रकम लेना चाहता हो।

15. आवेदन-पत्रों के साथ आवश्यक नकद रकम या चैक या रूपान्तरण के लिए स्वीकार्य ऋण की प्रतिभूतियां भेजी जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया या उसके सहायक बैंकों में दिये जाने वाले चैक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिए।

रूपान्तरण के लिए दी जाने वाली प्रतिभूतियां धारक द्वारा सरकार के नाम इस प्रकार अन्तरित की जानी चाहिए :—

- (i) स्टाक पत्रों के मामले में, किसी गवाह के सामने, स्टाक-पत्र के पृष्ठ भाग पर अन्तरण विलेख प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके;
- (ii) वचनपत्रों के मामले में, नीचे लिखे अनुसार पृष्ठांकित करके:—
“भारत के राष्ट्रपति को अदायगी कर”

16. भाव्यता प्राप्त बैंकों और दलालों को ऋण के लिए दिये गये उन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में, जिन पर उनकी मुहर हो, किये गये आवंटनों पर 6 पैसे प्रति 100 रुपये (अंकित मूल्य) की दर से दलाली दी जायगी।

दलाली की अदायगी के दावे, ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीनों के अन्दर भुगतान कार्यालयों को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

आवेदन-पत्र

मैं/हम

(पूरा/पूरे नाम साफ अक्षरों में)

..... इसके साथ

रुपये नकद* रुपये का बैंक रुपये

के अंकित मूल्य की भारत सरकार के $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1973 की प्रति-

भूतियां* पेश करता हूँ/करते हैं और प्रार्थना करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत

ब्याज वाले ऋण 1981* $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1987* $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत

ब्याज वाले ऋण 2003* (दूसरा निर्गम) की रुपये के अंकित मूल्य की प्रति-

भूतियां, स्टॉक पत्र (पत्रों)/वचन-पत्र/पत्रों** के रूप में जारी की जाएं जिनका ब्याज

..... पर देय हो।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

दिनांक जुलाई, 1973

(साफ अक्षरों में)

पता

टिप्पणी — (1) यदि रूपान्तरण के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियां वचनपत्रों के रूप में हों, तो आवेदक के हस्ताक्षर के ऊपर "भारत के राष्ट्रपति को अदायगी करें" शब्द पृष्ठांकित किए जाने चाहिए और यदि ये प्रतिभूतियां स्टॉक पत्रों के रूप में हों तो स्टॉक पत्रों के पृष्ठ भाग पर अन्तरण विलेख पर एक गवाह के सामने हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(2) प्रत्येक ऋण और अपेक्षित प्रत्येक ऋण के प्रत्येक प्रतिभूति-पत्र (स्टॉक पत्र या वचन-पत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र दिए जाने चाहिए।

(3) यदि आवेदक ने हस्ताक्षर के रूप में अंगुष्ठ का निशान लगाया हो, तो उस पर दो गवाहों की तसदीक होनी चाहिए। गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ, उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिए जाने चाहिए।

(4) यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्था के नाम से दिया जाए तो निवेश संबंधी आवेदन-पत्र के साथ नीचे लिखे दस्तावेज

यदि वे सरकारी ऋण कार्यालय में पहले से पंजीकृत न हों, लगा दिए जाने चाहिए:—

- (i) पंजीकरण/निगम का प्रमाण-पत्र
- (ii) निकाय/कम्पनी की वहनियमावली और अंतर्नियमावली या नियमों तथा विनियमों/उप विधियों की प्रमाणित प्रति,
- (iii) निकाय/कम्पनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कारबार करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्ति के हक में जारी किए गए संकल्प की प्रमाणित प्रति।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाय ।

**वचन-पत्र 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के मूल्य वर्गों के जारी किए जाएंगे । यहां पर उन खास मूल्य-वर्गों का उल्लेख किया जाए, जिनकी आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपति के आदेश से,
बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव ।

